

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर में डॉ. बी.आर.अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर में दिनांक 14 अप्रैल, 2019 को 11 बजे डॉ. बी. आर. अंबेडकर के 128वें जयंती समारोह का आयोजन उप महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष श्री एस. डी. पाटभाजे, मुख्य अतिथि की अध्यक्षता में किया गया एवं इस अवसर पर विशिष्ट अतिथिगण डॉ. कृष्ण दत्त, उपमहानिदेशक, रा. ई. राजस्थान, श्री एस. एस. दत्ता, निदेशक, श्री एस. के. कुलश्रेष्ठ, निदेशक और विभाग के अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। समारोह का आरंभ विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं बुद्ध वंदना और भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। श्री बाबूलाल बैरवा ने सभी का अभिनंदन करते हुए आशा व्यक्त की कि इस पावन अवसर पर आप सभी द्वारा बाबा साहेब के प्रति विचार, चिंतन और उनके कार्यकलापों पर प्रकाश डालने से हम सभी को ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। वक्ताओं ने भारत के संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। विभागाध्यक्ष महोदय ने बाबा साहेब के देश के प्रति समर्पण एवं त्याग की मुक्त कंठ से प्रशंसा की एवं सभी के उत्साह के प्रति आभार जताया। सभा में उपस्थित उपमहानिदेशक, डॉ. कृष्ण दत्त ने कहा की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कठिन, विषम और आभावों की परिस्थितियों में भी निरंतर अध्ययन करके उच्च शिक्षा ग्रहण की और विश्व स्तरीय संविधानों का भी अध्ययन किया और भारत को एक नया मजबूत और धर्मनिरपेक्ष संविधान दिया जिसके बल पर आज हमारा देश निरंतर विकास कर रहा है। कार्यालय अध्यक्ष श्री एस. एस. दत्ता ने कहा कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहकर बाबा साहेब ने अपना चहुँमुखी विकास किया और देश के समाज को जोड़ने का भरसक प्रयास किया। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अंत में डॉ. राजीव राही द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन हुआ। समारोह में विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह की कुछ झलकियाँ इस प्रकार हैं:-



मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण।



श्री एस. डी. पाटभाजे, उपमहानिदेशक दीप प्रज्ज्वलन करते हुए।



श्री एस. डी. पाटभाजे, उपमहानिदेशक संबोधित करते हुए।



डॉ. कृष्ण दत्त, उपमहानिदेशक, रा. ई. राजस्थान, संबोधित करते हुए।



डॉ. राजीव राही, वरि. भूवैज्ञानिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ।